

हीटवेव से नपिटने के लिये शहर का अर्बन स्वरूप

प्रलिस के लिये:

हीटवेव से नपिटने के लिये शहर का अर्बन स्वरूप, [हीटवेव](#), [जलवायु परिवर्तन](#), [वजिज्ञान और पर्यावरण केंद्र \(CSE\)](#)

मेन्स के लिये:

हीटवेव से नपिटने के लिये शहर के अर्बन स्वरूप को अपनाना

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

भारत में हीटवेव की बढ़ती घटनाएँ एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरी हैं, जिससे शहर के अर्बन स्वरूप को अपनाना अनिवार्य हो गया है।

- जहाँ बड़े शहरों में रहने की क्षमता में सुधार के लिये [जलवायु परिवर्तन](#) से नपिटने हेतु संघर्ष किया जा रहा है, वहीं छोटे शहर वसिफोटक वृद्धि के कगार पर हैं और इन्हें "हीट-प्रूफ" विकास की आवश्यकता है।

किसी शहर का अर्बन स्वरूप:

- **परिचय:**
 - प्रत्येक शहर में प्राकृतिक और मानव निर्मित बुनियादी ढाँचे और उनसे उत्पन्न गतिविधियों का एक अनूठा संयोजन होता है।
 - उदाहरण के लिये अधिक घनत्व वाली इमारतें कम स्थान घेरती हैं, जिससे वाहन उत्सर्जन में कमी आती है, **जो वायु को प्रदूषित कर वायु की ऊष्मा में वृद्धि करती हैं।**
 - अधिक हरियाली और जल निकास कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे जो परविश के वातावरण को ठंडा करेगा।
 - अधिक हरियाली वाले स्थानों, जल निकायों और इमारतों के इस संयोजन को शहर का अर्बन स्वरूप कहा जाता है, जो इसकी ऊष्मा के लचीलापन तथा रहने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **हीट रेसलिस में अर्बन स्वरूप की भूमिका:**
 - शहरी आकृति वजिज्ञान, आस्पेक्ट रेशियो (Aspect Ratio), स्काई व्यू फैक्टर (SVF), ब्लू/ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर (B/GI), फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)/फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) और स्टरीट ओरिएंटेशन जैसे पैरामीटर सामूहिक रूप से शहर के अर्बन स्वरूप को परिभाषित करते हैं तथा ऊष्मा के प्रताप इसकी संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं।
 - वर्ष 2022 में वजिज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) के एक अध्ययन ने पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बंगलूरु और जयपुर सहित 10 भारतीय शहरों में ऊष्मा के प्रताप विविध शहरी रूपों की प्रतिक्रिया की जाँच की।
 - अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों ने भारत के शहरों में गर्मी से नपिटने के संभावित कदमों पर प्रकाश डाला है।

शहरी आधारभूत ढाँचे से संबंधित वजिज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के निष्कर्ष:

- **अर्बन मोर्फोलोजी और हीट रेसलिस:**
 - मध्यम वर्ग की वनस्पतियों के साथ खुली ऊँचाई, खुली मध्य ऊँचाई और सघन मध्य ऊँचाई वाली आकृतियों वाले शहरी क्षेत्रों में ऊष्मा क्षेत्रों में भूमिसतह का तापमान (LST) कम होता है।
 - कम ऊँचाई वाली इमारतों के निकट वरिल वनस्पति के कारण 2-4 डिग्री सेल्सियस से अधिक भूमिसतह का तापमान (LST) होता है। एस्बेस्टस, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट और प्लास्टिक शीट जैसी अधिक ऊष्मा का अवशोषण करने वाली सामग्री की छत के कारण कम ऊँचाई वाले औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से समस्याग्रस्त हैं।

- ऐसी बेहतर छत सामग्री, परावर्तक पेंट और हरति छतों (Green Roofs) का उपयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं।

■ आस्पेक्ट रेशियो:

- आस्पेक्ट रेशियो इमारत की ऊँचाई एवं सड़क की चौड़ाई का अनुपात है। शहरी सतहों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को प्रभावित करता है।
- अध्ययन से पता चलता है कि आस्पेक्ट रेशियो जतिना अधिक होगा, LST उतना ही कम होगा। इसका मतलब यह है कि सड़क जतिनी संकरी होगी, गर्मी या ऊष्मा उतनी ही कम होगी। इमारतें एक-दूसरे को छाया प्रदान करती हैं जिससे सतह सूर्य के सीधे संपर्क में कम आती है।

■ स्याई व्यू फैक्टर और हीट ट्रैपिंग:

- SVF सड़कों और खुले स्थानों के भीतर ऊष्मा और अपव्यय को निर्धारित करता है। आकाश दृश्य कारक का मान 0 और 1 के बीच होता है। मान 1 का अर्थ है कि कोई भी नगण्य परिक्षेत्र नहीं है। उच्च SVF मान LST में उल्लेखनीय वृद्धि से जुड़े थे।
- उच्च SVF वाले स्थानों, जिनमें राजमार्ग, सड़क, चौराहे और खुले पार्कगि स्थल शामिल हैं में तापमान में वृद्धि का अनुभव हुआ।

■ स्ट्रीट ओरिएंटेशन और सन एक्सपोजर:

- धूप के संपर्क में आने और हवा की गति के कारण सड़क पर गर्मी का असर पड़ता है। धूप के अधिक संपर्क के कारण उत्तर-दक्षिण उन्मुख सड़कों पर LST अधिक था।
- पूर्व-पश्चिम अक्ष के साथ संरेखित सड़कें ठंडी थीं क्योंकि ये धूप के सीधे संपर्क में कम आती थीं।

■ नील/हरति अवसंरचना:

- हरे-भरे क्षेत्र शहरी क्षेत्र के सूक्ष्म जलवायु के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे तापमान और सापेक्ष आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, प्रदूषकों को अवशोषित एवं वधित करते हैं तथा समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार करते हैं।
 - हालाँकि हरियाली के प्रकार जैसे- घास, झाड़ियाँ या सघन पत्तों वाले वृक्ष आदि के आधार पर लाभ व्यापक रूप से भिन्न होते हैं।
 - सगिपुर ने नगरीय ताप द्वीप प्रभाव/अरबन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु प्रभावी वनस्पति आवरण (Effective Vegetation Cover- EVC) की गणना करने के लिये एक पद्धति विकसित की है।
- CSE द्वारा किये गए अध्ययन में पाया गया कि EVC में 30% की वृद्धि LST को 2-4 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देती है। कैनोपी वाले वृक्षों में EVC बेहतर होता है। सघन पत्तों वाले वृक्षों के नीचे LST उसी क्षेत्र में ताड़ के वृक्षों के नीचे के LST की तुलना में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है।

कसी शहर के अरबन स्वरूप को अपनाने हेतु कदम:

- अरबन स्वरूप -आधारित कोड संदर्भ-वशिष्ट शीतलन समाधान प्रदान कर सकते हैं। ये कोड कसी शहर या आस-पास की वशिष्ट वशिष्टताओं के अनुसार ज़ोनगि नियमों को तैयार करने में मदद कर सकते हैं। ये पुराने बाज़ारों में छायादार मार्ग, मंदिर परिसर, ठंडी छतें और उच्च EVC (30%) वाले व्यापारिक ज़िले हो सकते हैं।
- शहरों को इस अध्ययन से प्राप्त अंतरदृष्टि को शामिल करने और गर्मी के प्रति अनुकूलन में सुधार करने के लिये अपने नव उपनयमों और मास्टर प्लान को संशोधित करना चाहिये।
 - उदाहरण के लिये पुणे शहर ने जिस तरह SVF, स्थिति अनुपात, प्रभावी वनस्पति आवरण और शहरी आकारिकी पर ध्यान केंद्रित किया है, वह सभी शहरों के लिये मॉडल हो सकता है।
- यहाँ तक कि तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की मामूली कमी से भी शहर की बजिली खपत में 2% की कमी हो सकती है, जेम्हावी नयोजन के संभावित प्रभाव को दर्शाता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. वर्तमान में और नकिट भविष्य में भारत की ग्लोबल वार्मगि को कम करने में संभावित सीमाएँ क्या हैं? (2010)

1. उपयुक्त वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
2. भारत अनुसंधान एवं विकास में अधिक धन का निवेश नहीं कर सकता है।
3. भारत में अनेक विकसित देशों ने पहले ही प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग स्थापित कर लिये हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

??????:

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/urban-form-of-a-city-to-deal-with-heatwaves>

